


उत्तराखण्ड शासन  
संस्कृत शिक्षा अनुभाग  
संख्या- 241 /XLII-1/2019-03(13)2014  
देहरादून: दिनांक 24 अप्रैल, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-73/XXXIV/2019-24/2015 दिनांक 22.02.2019 एवं सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-350/XXXIV/2018-24/2015 दिनांक 07.08.2018 के क्रम में डिजिटल लॉकर के क्रियान्वयन हेतु संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है:-


नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग	मो0 नं0	ई-मेल
श्री वीरेन्द्र पाल सिंह	संयुक्त सचिव	संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड शासन	9927699454	virendrapalsingh12@gmail.com
श्रीमती महिमा	उप सचिव	संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड शासन	9927699595	-
श्री बी0एस0 नेगी	सचिव	उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून	9412307600	bhunegi1964@gmail.com
श्री जी0के0 अवस्थी	कुलसचिव	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	9412998994	registrar@usvv.ac.in
श्री जी0एस0 भाकुनी	सचिव	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार	9927699233	uttaranchal_ankrit11@rediffmail.com

  
(इन्दुधर बौड़ाई)  
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- 241 (1)/XLII-1/2019-03(13)2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. संयुक्त सचिव/उप सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून।
6. कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
7. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(अरुण कुमार)  
अनु सचिव।